

**CBSE Class 12 Chemistry Question Paper 2020**  
**Set 56/5/1**

Series : HMJ/5

SET - 1

कोड नं.  
Code No. **56/5/1**

रोल नं.  
Roll No.

परीक्षार्थी कोड को उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें।  
Candidates must write the Code on the title page of the answer-book.

नोट	NOTE
(I) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मुद्रित पृष्ठ 15 हैं।	(I) Please check that this question paper contains 15 printed pages.
(II) प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नम्बर को छात्र उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें।	(II) Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
(III) कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 37 प्रश्न हैं।	(III) Please check that this question paper contains 37 questions.
(IV) कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।	(IV) Please write down the Serial Number of the question in the answer-book before attempting it.
(V) इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है। प्रश्न-पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा। 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पुस्तिका में कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।	(V) 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

**रसायन विज्ञान (सैद्धान्तिक)**  
**CHEMISTRY (Theory)**

निर्धारित समय : 3 घण्टे

Time allowed : 3 hours

अधिकतम अंक : 70

Maximum Marks : 70

**.56/5/1.**

**322A**

1

P.T.O.

सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका अनुपालन कीजिए :

- (i) प्रश्न-पत्र चार खण्डों में विभाजित है – क, ख, ग और घ ।
- (ii) इस प्रश्न-पत्र में 37 प्रश्न हैं । सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (iii) खण्ड-क – प्रश्न-संख्या 1 से 20 तक अति लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है । प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए ।
- (iv) खण्ड-ख – प्रश्न-संख्या 21 से 27 तक लघु-उत्तरीय प्रकार के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है ।
- (v) खण्ड-ग – प्रश्न-संख्या 28 से 34 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रकार-1 के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है ।
- (vi) खण्ड-घ – प्रश्न-संख्या 35 से 37 तक दीर्घ-उत्तरीय प्रकार-2 के प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है ।
- (vii) कोई समग्र विकल्प नहीं है । तथापि, दो-दो अंकों के दो प्रश्नों में, तीन-तीन अंकों के दो प्रश्नों में तथा पाँच-पाँच अंकों के तीनों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया गया है । ऐसे प्रश्नों में केवल एक ही विकल्प का उत्तर दीजिए ।
- (viii) इसके अतिरिक्त, आवश्यकतानुसार, प्रत्येक अनुभाग और प्रश्न के साथ यथोचित निर्देश दिए गए हैं ।
- (ix) कैलकुलेटर अथवा लॉग टेबल के प्रयोग की अनुमति नहीं है ।

**General Instructions :**

**Read the following instructions very carefully and strictly follow them :**

- (i) Question paper comprises four sections – A, B, C and D.
- (ii) There are **37** questions in the questions paper. **All** questions are compulsory.
- (iii) Section – A : Q. No. **1** to **20** are very short answer type questions carrying **one** mark each. Answer these questions in one word or one sentence.
- (iv) Section – B : Q. No. **21** to **27** are short answer type questions carrying **two** marks each.
- (v) Section – C : Q. No. **28** to **34** are long answer type-I questions carrying **three** marks each.
- (vi) Section – D : Q. No. **35** to **37** are long answer type-II questions carrying **five** marks each.
- (vii) There is **NO** overall choice in the question paper. However, an internal choice has been provided in **2** questions of **two** marks, **2** questions of **three** marks and all the **3** questions of **five** marks. You have to **attempt only one of the choices** in such questions.
- (viii) However, separate instructions are given with each section and question, wherever necessary.
- (ix) Use of calculators and log tables is **NOT** permitted.

### खण्ड : क

निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न 1 से 5 के उत्तर दीजिए ।

हैलोजनों की अपने-अपने आवर्तों में सबसे छोटी परमाण्विक त्रिज्या होती है । फ्लुओरीन की परमाणु त्रिज्या नितान्त छोटी है । सभी हैलोजन – 1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं । वे प्रबलतम ऑक्सीकारक हैं और इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी सबसे अधिक ऋणात्मक होती हैं । हैलोजनों में, फ्लुओरीन कई गुणधर्मों में असामान्य व्यवहार दर्शाती है । उदाहरण के लिए विद्युत ऋणात्मकता तथा आयनन एन्थैल्पी फ्लुओरीन के लिए अपेक्षित मानों से उच्च होते हैं जबकि आबन्ध वियोजन एन्थैल्पी, गलनांक, क्वथनांक और इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी अपेक्षित मानों से बहुत कम होते हैं । हैलोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड (HX) बनाती हैं और आपस में एक दूसरे के साथ संयोग करके  $XX'_3$ ,  $XX'_5$  और  $XX'_7$  प्रकार के अनेकों यौगिक बनाती हैं जिन्हें अंतराहैलोजन कहते हैं ।

1. हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी अधिकतम ऋणात्मक क्यों होती है ?
2. अन्य हैलोजनों की तुलना में फ्लुओरीन असामान्य व्यवहार क्यों दर्शाती है ?
3. हाइड्रोजन हैलाइडों (HF से HI) को उनके अपचायक लक्षण के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए ।
4. क्लोरिन की अपेक्षा फ्लुओरीन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों है ?
5. अंतराहैलोजन यौगिकों में X और X' के आकार क्या हैं ?

प्रश्न संख्या 6 से 10 एक शब्द उत्तरीय हैं ।

6. श्रवण यंत्र और घड़ियों में प्रयुक्त सेल का नाम लिखिए ।
7. 1 मोल  $MnO_4^-$  को  $Mn^{2+}$  में अपचयन के लिए फैराडे के मात्रक में कितने आवेश की आवश्यकता होगी ?
8. किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समय के साथ  $\log [R_0] / [R]$  के विचरण को दर्शाने वाले ग्राफ के ढाल का मान लिखिए ।
9. किसी मधुमेह रोगी के लिए मिठाइयाँ बनाने के लिए प्रयुक्त मधुरक का नाम लिखिए ।
10. बिजली के स्विच और कंधे बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक का नाम लिखिए ।

## SECTION : A

Read the given passage and answer the questions 1 to 5 that follow :

The halogens have the smallest atomic radii in their respective periods. The atomic radius of fluorine is extremely small. All halogens exhibit – 1 oxidation state. They are strong oxidising agents and have maximum negative electron gain enthalpy. Among halogens, fluorine shows anomalous behaviour in many properties. For example electro negativity and ionisation enthalpy are higher for fluorine than expected whereas bond dissociation enthalpy, m.p. and b.p. and electron gain enthalpy are quite lower than expected. Halogens react with hydrogen to give hydrogen halides (HX) and combine amongst themselves to form a number of compounds of the type  $XX'$ ,  $XX'_3$ ,  $XX'_5$  and  $XX'_7$  called inter-halogens.

1. Why halogens have maximum negative electron gain enthalpy ?
2. Why fluorine shows anomalous behaviour as compared to other halogens ?
3. Arrange the hydrogen halides (HF to HI) in the decreasing order of their reducing character.
4. Why fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine ?
5. What are the sizes of X and X' in the interhalogen compounds ?

Question 6 to 10 are one word answers.

6. Name the cell used in hearing aids and watches.
7. How much charge in terms of Faraday is required to reduce one mol of  $MnO_4^-$  to  $Mn^{2+}$  ?
8. Write the slope value obtained in the plot of  $\log [R_0] / [R]$  Vs. time for a first order reaction.
9. Name the sweetening agent used in the cooking of sweets for a diabetic patient.
10. Name the polymer which is used for making electrical switches and combs.

प्रश्न सं. 11 से 15 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं :

11. मॉण्ड प्रक्रम में धातु के शोधन के लिए प्रयुक्त गैस है  
(a)  $H_2$  (b)  $CO_2$   
(c)  $CO$  (d)  $N_2$
12. किसी ऐल्किल हैलाइड का जलीय  $NaOH$  द्वारा ऐल्कोहॉल में परिवर्तन वर्गीकृत की जा सकती है  
(a) विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया (b) प्रतिस्थापन अभिक्रिया  
(c) योगज अभिक्रिया (d) निर्जलन अभिक्रिया
13.  $CH_3CONH_2$  ऐल्कोहॉली माध्यम में  $NaOH$  और  $Br_2$  के साथ अभिक्रिया करके देता है  
(a)  $CH_3CH_2NH_2$  (b)  $CH_3CH_2Br$   
(c)  $CH_3NH_2$  (d)  $CH_3COONa$
14.  $[Ni(CO)_4]$  में  $Ni$  की ऑक्सीकरण अवस्था है  
(a) 0 (b) 2  
(c) 3 (d) 4
15. ऐमीनो अम्ल होते हैं  
(a) अम्लीय (b) क्षारीय  
(c) उभयधर्मी (d) उदासीन

प्रश्न 16 से 20 :

- (A) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही कथन हैं और कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या है।  
(B) अभिकथन (A) और कारण (R) दोनों सही कथन हैं परन्तु कारण (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं है।  
(C) अभिकथन (A) सही है, परन्तु कारण (R) गलत कथन है।  
(D) अभिकथन (A) गलत है, परन्तु कारण (R) सही कथन है।
16. **अभिकथन (A) :** सान्द्रता घटने के साथ वैद्युतअपघट्य की चालकता बढ़ती है।  
**कारण (R) :** तनुकरण करने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है।
17. **अभिकथन (A) :** ईथरों में  $C-O-C$  आबन्ध कोण चतुष्फलकीय कोण से जरा-सा कम है।  
**कारण (R) :** ईथरों में दो ऐल्किल समूहों के बीच प्रतिकर्षी अन्तःक्रिया के कारण।
18. **अभिकथन (A) :** निम्न प्रचक्रण चतुष्फलकीय संकुल विरले ही देखे जाते हैं।  
**कारण (R) :** चतुष्फलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा से कम होती है।

Questions 11 to 15 are multiple choice questions.

11. In the Mond's process the gas used for the refining of a metal is  
(a)  $H_2$  (b)  $CO_2$   
(c)  $CO$  (d)  $N_2$
12. The conversion of an alkyl halide into an alcohol by aqueous NaOH is classified as  
(a) a dehydrohalogenation reaction  
(b) a substitution reaction  
(c) an addition reaction  
(d) a dehydration reaction
13.  $CH_3CONH_2$  on reaction with NaOH and  $Br_2$  in alcoholic medium gives  
(a)  $CH_3CH_2NH_2$  (b)  $CH_3CH_2Br$   
(c)  $CH_3NH_2$  (d)  $CH_3COONa$
14. The oxidation state of Ni in  $[Ni(CO)_4]$  is  
(a) 0 (b) 2  
(c) 3 (d) 4
15. Amino acids are  
(a) acidic (b) basic  
(c) amphoteric (d) neutral

Questions 16 to 20.

- (A) Both Assertion (A) and Reason (R) are correct statements, and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).  
(B) Both Assertion (A) and Reason (R) are correct statements, but Reason (R) is not the correct explanation of the Assertion (A).  
(C) Assertion (A) is correct, but Reason (R) is wrong statement.  
(D) Assertion (A) is wrong, but Reason (R) is correct statement.
16. **Assertion (A)** : Conductivity of an electrolyte increases with decrease in concentration.  
**Reason (R)** : Number of ions per unit volume decreases on dilution.
17. **Assertion (A)** : The C-O-C bond angle in ethers is slightly less than tetrahedral angle.  
**Reason (R)** : Due to the repulsive interaction between the two alkyl groups in ethers.
18. **Assertion (A)** : Low spin tetrahedral complexes are rarely observed.  
**Reason (R)** : Crystal field splitting energy is less than pairing energy for tetrahedral complexes.

19. **अभिकथन (A) :** क्वथनांक का उन्नयन एक अणुसंख्य गुणधर्म है ।  
**कारण (R) :** क्वथनांक में उन्नयन मोलरता के अनुक्रमानुपाती होता है ।
20. **अभिकथन (A) :** ऐल्डिहाइडों की अपेक्षा कीटोनों का ऑक्सीकरण आसानी से हो जाता है ।  
**कारण (R) :** ऐल्डिहाइडों के C – H आबन्ध की तुलना में कीटोनों का C – C आबन्ध प्रबल होता है । 20 × 1 = 20

### खण्ड – ख

21. वाष्पशील घटकों वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखिए । राउल्ट के नियम और हेनरी के नियम में क्या समानता है ? 2
22. निम्नलिखित की भूमिका लिखिए :  
 (a) सोने के निष्कर्षण में तनु NaCN की  
 (b) लोहे के निष्कर्षण में CO की । 1 + 1 = 2
- अथवा**
- निम्न कोटि के कॉपर अयस्कों का निक्षालन कैसे सम्पन्न किया जाता है ? कॉपर धातु के शोधन में प्रयुक्त विधि का नाम लिखिए । 2
23. उदाहरण के साथ अधिशोषण को परिभाषित कीजिए । विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण की भूमिका क्या है ? 2
- अथवा**
- ब्राउनी गति को परिभाषित कीजिए । कोलॉइडी कणों में ब्राउनी गति का कारण क्या है ? यह कोलॉइडी सॉल के स्थायित्व के लिए कैसे उत्तरदायी है ? 2
24. (a) संकुल  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$  का आईयूपीएसी नाम एवं संकरण लिखिए ।  
 (दिया है : Fe का परमाणु क्रमांक = 26)  
 (b) उभदन्ती लिगण्ड और कीलेट लिगण्ड के बीच क्या अन्तर है ? 1 + 1 = 2
25. पूतिरोधी, विसंक्रामियों से किस प्रकार भिन्न होते हैं ? एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखिए जो विसंक्रामी और पूतिरोधी दोनों की तरह प्रयुक्त हो सकता हो । 2
26. निम्नलिखित बहुलकों में एकलकों की पहचान कीजिए :
- (i)  $\left[ \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{O} - \text{C} \begin{array}{l} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C}_6\text{H}_4 \\ \text{CO} \end{array} \right]_n$
- (ii)  $\left[ \text{CH}_2 - \overset{\text{CN}}{\text{CH}} \right]_n$  1 + 1 = 2



19. **Assertion (A)** : Elevation in boiling point is a colligative property.  
**Reason (R)** : Elevation in boiling point is directly proportional to molarity.
20. **Assertion (A)** : Oxidation of ketones is easier than aldehydes.  
**Reason (R)** : C-C bond of ketones is stronger than C-H bond of aldehydes. 20 × 1 = 20

### SECTION – B

21. State Raoult's law for a solution containing volatile components. What is the similarity between Raoult's law and Henry's law ? 2

22. Write the role of  
 (a) Dilute NaCN in the extraction of Gold.  
 (b) CO in the extraction of Iron. 1 + 1 = 2

**OR**

How is leaching carried out in the case of low grade copper ores ? Name the method used for refining of copper metal. 2

23. Define adsorption with an example. What is the role of adsorption in heterogeneous catalysis ? 2


**OR**

Define Brownian movement. What is the cause of Brownian movement in colloidal particles ? How is it responsible for the stability of Colloidal Sol ? 2



24. (a) Write the IUPAC name and hybridisation of the complex  $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ .  
 (Given : Atomic number of Fe = 26)  
 (b) What is the difference between an ambidentate ligand and a chelating ligand ? 1 + 1 = 2

25. How do antiseptics differ from disinfectants ? Name a substance which can be used as a disinfectant as well as an antiseptic. 2

26. Identify the monomers in the following polymers :



27. निम्नलिखित की संरचनाएँ बनाइए :



1 + 1 = 2

**खण्ड : ग**

28.  $AlCl_3$  का 0.01 m जलीय विलयन – 0.068 °C पर हिमीभूत हुआ । वियोजन की प्रतिशतता परिकलित कीजिए । [दिया है : जल के लिए  $K_f = 1.86 K kg mol^{-1}$ ]

3

29. श्रेणीक्रम में संयोजित दो वैद्युतअपघटनी सेलों A और B जिनमें  $ZnSO_4$  और  $CuSO_4$  वैद्युतअपघट्य भरे हैं, में 2A की स्थिर विद्युतधारा प्रवाहित करने पर सेल B के कैथोड पर 2g Cu निक्षेपित हुआ । विद्युतधारा कितने समय तक प्रवाहित की गई ? सेल A के कैथोड पर Zn की कितनी मात्रा निक्षेपित हुई ?

[परमाणु द्रव्यमान : Cu = 63.5 g mol<sup>-1</sup>, Zn = 65 g mol<sup>-1</sup>; 1F = 96500 C mol<sup>-1</sup>]

3

30. निम्नलिखित के मध्य विभेद कीजिए :


(i) ऐमिलोस और ऐमिलोपेक्टिन

(ii) गोलिकाकार प्रोटीन एवं रेशेदार प्रोटीन

(iii) न्यूक्लिओटाइड और न्यूक्लिओसाइड

1 + 1 + 1 = 3

31. निम्नलिखित में A, B, C, D, E और F को पहचानिए :




6 × ½ = 3

32. निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपेक्षित अन्तिम उत्पादों की संरचनाएँ दीजिए :

(i) प्रोपीन का हाइड्रोबोरॉनन तत्पश्चात क्षारीय माध्यम में  $H_2O_2$  द्वारा ऑक्सीकरण ।

(ii) 358 K पर 20%  $H_3PO_4$  के साथ गर्म किए जाने पर  $(CH_3)_3C-OH$  का निर्जलन ।

(iii) HI के साथ  को गरम करने पर ।

3 × 1 = 3

**अथवा**

आप निम्नलिखित परिवर्तन कैसे सम्पन्न करेंगे ?

(i) फ़ीनॉल से o-हाइड्रोक्सी बेन्ज़ैल्डिहाइड

(ii) मेथेनैल से एथेनॉल

(iii) फ़ीनॉल से फ़ेनिल एथेनोएट

1 + 1 + 1 = 3



33. कारण दीजिए :

- (i) ऐनिलीन फ्रीडेल-क्राफ्ट्स अभिक्रिया नहीं करती ।  
(ii) ऐरोमैटिक प्राथमिक ऐमीनों को गैब्रिएल थैलामाइड संश्लेषण विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता है ।  
(iii) अमोनिया की तुलना में ऐलीफैटिक ऐमीन प्रबल क्षारक होते हैं ।  $3 \times 1 = 3$

34. द्रवविरागी सॉल और द्रवरागी सॉल में तीन अन्तर दीजिए । 3

अथवा

निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए :

- (i) रक्षी कोलॉइड (ii) ज़ीटा विभव (iii) पायसीकर्मक  $1 + 1 + 1 = 3$

खण्ड : घ

35. (a) कारण दीजिए :

- (i) संक्रमण धातुएँ तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता दर्शाती हैं ।  
(ii) लैन्थेनॉयड तत्त्वों के मिश्रण का पृथक्करण कठिन होता है ।  
(iii) Zn, Cd और Hg नरम तथा निम्न गलनांक वाली होती हैं ।

(b) निम्नलिखित के विरचन लिखिए :

- (i)  $\text{Na}_2\text{CrO}_4$  से  $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$   
(ii)  $\text{MnO}_2$  से  $\text{K}_2\text{MnO}_4$   $3 + 2 = 5$

अथवा

(a) निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए :

- (i) जलीय विलयन में  $\text{Ti}^{3+}$  रंगीन है जबकि  $\text{Sc}^{3+}$  रंगहीन है ।  
(ii)  $\text{Cr}^{2+}$  एक प्रबल अपचायक है ।


(b) लैन्थेनॉयडों और ऐन्टिऑयडों के रसायन के बीच दो समानताएँ लिखिए ।

(c) निम्नलिखित आयनिक समीकरण पूर्ण कीजिए :



36. (a) जब बेन्ज़ैल्डिहाइड निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित उत्पादों को लिखिए :

(i) तनु NaOH की उपस्थिति में  $\text{CH}_3\text{CHO}$

(ii)  $\text{H}_2\text{N} - \text{NH} -$  

(iii) सान्द्र NaOH

(b) निम्नलिखित के मध्य विभेद कीजिए :

(i)  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CO} - \text{CH}_3$  और  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CO} - \text{CH} = \text{CH}_2$

(ii) बेन्ज़ैल्डिहाइड और बेन्ज़ोइक अम्ल  $3 + (1 + 1) = 5$

अथवा

33. Give reasons :
- (i) Aniline does not undergo Friedal-Crafts reaction.
  - (ii) Aromatic primary amines cannot be prepared by Gabriel's phthalimide synthesis.
  - (iii) Aliphatic amines are stronger bases than ammonia. 3 × 1 = 3

34. Write three differences between lyophobic sol and lyophilic sol. 3

**OR**

Define the following terms :


- (i) Protective colloid
- (ii) Zeta potential
- (iii) Emulsifying agent 1 + 1 + 1 = 3

**SECTION : D**

35. (a) Give reasons :
- (i) Transition metals and their compounds show catalytic activities.
  - (ii) Separation of a mixture of Lanthanoid elements is difficult.
  - (iii) Zn, Cd and Hg are soft and have low melting point.
- (b) Write the preparation of the following :
- (i)  $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$  from  $\text{Na}_2\text{CrO}_4$
  - (ii)  $\text{K}_2\text{MnO}_4$  from  $\text{MnO}_2$  3 + 2 = 5



**OR**

- (a) Account for the following :
- (i)  $\text{Ti}^{3+}$  is coloured whereas  $\text{Sc}^{3+}$  is colourless in aqueous solution.
  - (ii)  $\text{Cr}^{2+}$  is a strong reducing agent.
- (b) Write two similarities between chemistry of lanthanoids and actinoids.
- (c) Complete the following ionic equation :
- $$3 \text{MnO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ \longrightarrow \quad \quad \quad 2 + 2 + 1 = 5$$


36. (a) Write the products formed when benzaldehyde reacts with the following reagents :
- (i)  $\text{CH}_3\text{CHO}$  in presence of dilute NaOH
  - (ii)  $\text{H}_2\text{N} - \text{NH} -$  
  - (iii) Conc. NaOH
- (b) Distinguish between following :
- (i)  $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CO} - \text{CH}_3$  and  $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CO} - \text{CH} = \text{CH}_2$
  - (ii) Benzaldehyde and Benzoic acid. 3 + (1 + 1) = 5

**OR**

(a) निम्नलिखित में अन्तिम उत्पादों को लिखिए :



(b) निम्नलिखित को उनकी नाभिकरागी योगज अभिक्रियाओं के प्रति बढ़ती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए :



(c) ऐसीटैल्डिहाइड के 2, 4 - डी.एन.पी. व्युत्पन्न की संरचना बनाइए ।

3 + 1 + 1 = 5

37. (a) एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 25% पूर्ण होने में 40 मिनट लगते हैं । वेग स्थिरांक का मान परिकलित कीजिए । कितने समय में अभिक्रिया 80% पूर्ण होगी ?

(b) अभिक्रिया कोटि को परिभाषित कीजिए । उस परिस्थिति को लिखिए जिसमें एक द्विअणुक अभिक्रिया प्रथम कोटि बलगतिकी का पालन करती है ।

3 + 2 = 5

अथवा

(a) एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 50% पूर्ण होने में 300 K पर 30 मिनट लगते हैं और 320 K पर 10 मिनट । अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा ( $E_a$ ) परिकलित कीजिए ।

$(R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$



(b) संघट्टों के प्रभावी संघट्ट होने के लिए दो परिस्थितियाँ लिखिए ।

(c) जटिल अभिक्रिया के प्रति अभिक्रिया की कोटि और आविष्कता किस प्रकार से भिन्न होती हैं ?


[दिया है :  $\log 2 = 0.3010, \log 3 = 0.4771, \log 4 = 0.6021, \log 5 = 0.6991$ ]

3 + 1 + 1 = 5

(a) Write the final products in the following :



(b) Arrange the following in the increasing order of their reactivity towards nucleophilic addition reaction :



(c) Draw the structure of 2, 4 DNP derivative of acetaldehyde. **3 + 1 + 1 = 5**

37. (a) A first order reaction is 25% complete in 40 minutes. Calculate the value of rate constant. In what time will the reaction be 80% completed ?

(b) Define order of reaction. Write the condition under which a bimolecular reaction follows first order kinetics. **3 + 2 = 5**

**OR**

(a) A first order reaction is 50% complete in 30 minutes at 300 K and in 10 minutes at 320 K. Calculate activation energy ( $E_a$ ) for the reaction.

$(R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1})$

(b) Write the two conditions for collisions to be effective collisions.

(c) How order of reaction and molecularity differ towards a complex reaction ?

[Given :  $\log 2 = 0.3010$ ,  $\log 3 = 0.4771$ ,  $\log 4 = 0.6021$ ,  $\log 5 = 0.6991$ ]

**3 + 1 + 1 = 5**